

Gandhi Special Tubes Ltd.

Regd. Off. : 201-204, Plaza, 2nd Floor, 55 Hughes Road, Mumbai - 400 007.

Tel.: 2363 4179 / 2363 4183 / 2363 5042

E-mail : info@gandhitubes.com • Website : www.gandhispecialtubes.com

CIN : :L27104MH1985PLC36004



October 16, 2021

Corporate Relationship Department BSE LIMITED 1 st floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001 Scrip Code: 513108	The Manager Listing Department THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD Exchange Plaza Plot No C/1., G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400051 Company Code : GANDHITUBE
--	---

Dear Sir / Madam,

Sub: Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018

Re: Buy Back of Equity Shares by M/s. Gandhi Special Tubes Limited

With regards to the captioned subject, please find enclosed the copy of the Post Buyback Public Advertisement dated Friday, October 15, 2021, published in the following newspapers on Saturday, October 16, 2021, issued by the Company pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018:

1. Business Standard (English - All Editions) (English National Daily);
2. Business Standard (Hindi - All Editions) (Hindi National Daily); and
3. Navshakti (Marathi - Mumbai Edition) (Regional Language Daily).

The above documents are being uploaded on the Company's website at www.gandhispecialtubes.com and on the website of stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Kindly take the same on record.

Yours faithfully,

For **Gandhi Special Tubes Limited**



Jitendra Khadye
Company Secretary & Compliance Officer
(Membership No: A61403)



Weekend Business Standard
BENGALURU EDITION

Printed and Published by Rajiv Sharma on behalf of Business Standard Private Limited and printed at MMS Printers Private Limited, 34/54, Athamballi, Old Madhav Road, Bengaluru-560 049 and published at Business Standard Private Limited, Co. Regis. CID, L-6, Rajajya Towers, East Wing, No. 26/27 MG Road, Bengaluru - 560001

Editor: Shashish Dabhal
Rajiv No. KARNING013252756
Readers should write their feedback at feedback@bstandard.in
PH: 080-22484968 Fax: 080-224846567

For subscription and circulation enquiries please contact:
Ms. Manal Singh
Head-Customer Relations
Business Standard Private Limited
H4 & 1/3, Building W, Parkson Centre, City, B'lore
RB Mang. World, Mumbai - 400013
E-mail: sales_bst@bstandard.in
or sales_bst@bstd.in

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of development to the reader, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgments. Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements inserted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.
Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by Business Standard Ltd. All printing, publication, reproduction, transmission or endorsement of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of Business Standard Private Limited. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.

No Air Surcharge

SOUTH WESTERN RAILWAY

E-Tender Notice Bid No. GEM/2021/B/137834 Date: 07.10.2021
The undersigned, on behalf of the President of India, invites e-tenders for the following work:

Item of work Approx. Value
Bengaluru Division: Rs. 11,85,53,853/-
The work of "General Furnishing, Carpentry, Plumbing & Passenger amenity work round the clock for all primary trains at Coaching Depot Bengaluru/Vesantpur/Bayyasareshah of Bengaluru Division during primary maintenance for a period of two years".
Last date for submission of bids: Up to 11:00 hrs. on 28.10.2021
For further details please refer to the Divisional Railway Manager (Mechanical) Bengaluru
www.swr.india.gov.in

CONTROL PRINT LIMITED
CIN: L22119MH1991PLC059800
Regd. Office: C-106, Hind Samarth Industrial Estate, Ancher-Kurli Road, Marol Nisarga, Andheri (East), Mumbai 400 022. Phone No. 022-26366026/26369800
E-mail: companysecretary@controlprint.com
Website: www.controlprint.com

NOTICE
Notice is hereby given in terms of Regulation 29 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, October 22, 2021, inter-alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended September 30, 2021.
The information is also available on the Company's website www.controlprint.com as well as on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For Control Print Limited
Sd/-
Basant Kabra
Managing Director

भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www RBI.org.in

AUCTION OF STATE GOVERNMENT SECURITIES

The following State Government/UTs have offered to sell 5 to 13 year securities by way of auction for an aggregate amount of ₹5,000 crore (Face Value).

Sr. No.	State/UT	Amount to be raised (₹cr)	Additional borrowing (Green) Shoe option (₹cr)	Tenure (in years)	Type of auction
1.	Gujarat	1,500	-	5	Yield based
2.	Haryana	1,500	-	10	Yield based
3.	Karnataka	1,000	-	10	Yield based
		1,000	-	13	Yield based
	Total	5,000			

The auction will be conducted on Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) in multiple-price format on October 18, 2021 (Monday). For further details, please refer to RBI press release dated October 13, 2021 (Wednesday) on RBI website (www.rbi.org.in).

Don't get cheated by E-mail/SMS/Calls promising you money

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 4(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IFL Home Finance Limited (Formerly known as India InHome Housing Finance Ltd.) (IFL) under the Rehabilitation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 2 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorized Officer of the company to the borrowers (co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the annexed within 60 days from the date of receipt of this said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(12) of the said Act read with Rule 2 of the said rules. The borrower is particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of IFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

Name of the Borrower(s)	Description of secured asset (Immovable property)	Proposed No. 93854 R/R	Current No. 1351, 1255 (Rupees Three Lakh Fifty One Thousand Nine Hundred Twenty Two Only)	Date of Notice	Date of Possession
Bangalore BRANCH M. Nagarkrishna G. Mrs. Manjula H G (Prospect No. 92964 and 90634)	All that piece and parcel of: V P Plot No. 15536, Property No. 3718, area measuring 0.0407 Hrs, Thimmaganahalli Village, Doddasagarige Panchayath, Sublime Hoshiholakere Taluk, Bangalore. Phone: 932156, Karnataka	Proposed No. 93854 R/R	11,60,000/- (Rupees Eleven Lakh Forty Nine Thousand and Ninety Two Only)	10-Aug-2021	12-Oct-21
Mr. Rajeswar Reddy D, Raj Francis And Madrasa and Mrs. Thirugonda Muthiah (Prospect No. 67791)	All that piece and parcel of: Flat No Madaba, 310 Third Floor, area measuring 1017 Sq. Ft. Soverisima Purple Rose Su.No.102, Sikkata A/1 Yelachenraikavuru Village, Koppal Hoshi Holakere Taluk, Bangalore. 562114, Karnataka.	Rr. 27,21,382/- (Rupees Twenty Seven Lakh Twenty Three Thousand Three Hundred Eighty Two Only)		17-Jul-2021	12-Oct-21

For further details please contact to Authorized Officer at Branch Office: "NAGAM CHAMBERS", #11, Richmond Road, Bengaluru-560029 or Corporate Office: Plot No. 98, Phase A, Udaya Way, Gurgaon, Haryana.
Place: Bangalore Date: 16/10/2021 Sd/- Authorized Officer, For IFL Home Finance Limited

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED
A Tata Power and Delhi Government Joint Venture
Regd. Office: NDL, Phase II, Hudson Lines, Ambeyal, Conch, Delhi 110009
Tel: 011-2222222 Fax: 2746804 Email: TPDUL@tatapower-del.com
CIN No: 14U1090-D2011PLD11152 Website: www.tatapower-del.com

NOTICE INVITING TENDERS Oct 15, 2021

TATA POWER-DEL invites tenders as per following details:

Tender Enquiry No. / Work Description	Estimated Cost/AMTD (₹ Lakh)	Sale of Bid Document	Last Date & Time of Bid Submission/ Date and time of Opening of bids
TPDDELNGENQ2000013421-22 RC for Supply of Air Winding Distribution Transformers	1.38 Cr. 3.42 Lakh	16.10.2021	09.11.2021 at 10:00 Hrs 09.11.2021 at 16:30 Hrs
TPDDELNGENQ2000013421-22 RC for Supply of Magnetic Float Switch for Distribution Transformers	48.40 Lakh 1.21 Lakh	18.10.2021	08.11.2021 at 17:00 Hrs 08.11.2021 at 16:30 Hrs

CORRIGENDUM / TENDER DATE EXTENSION

Tender Enquiry No. / Work Description	Previously Published Date	Revised Due Date & Time of Bid Submission/ Date & time of opening of bids
TPDDELNGENQ2000013367-22 Network Survey and Digitization in GIS for 1 year	16.09.2021	22.10.2021 at 17:00 Hrs 22.10.2021 at 17:30 Hrs
TPDDELNGENQ200001346-21-22 RC for supply of street light poles	06.10.2021	29.10.2021 at 18:00 Hrs 29.10.2021 at 16:30 Hrs

Complete tender and corrigendum document is available on our website www.tatapower-del.com → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents
Contact No - 911-6112222

SCHEDULE II FORM B PUBLIC ANNUITY PROCEED

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF SHRIRAM LAND DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED

Sl. No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name of Corporate Debtor	SHRIRAM LAND DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	25 th March 2003
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated/registered	Registrar of Companies, Chennai
4.	Corporate Identity number of Corporate Debtor	U45201TN2003PTD050568
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	Registered Office: No. 1 Club House Road, Chennai 600 002, Corporate Office: 33-34, 162, 4 th Main Road, 4 th Cross, RMV Extension, Saldulowagar, Bengaluru 560080.
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	01 st October 2021
7.	Liquidation commencement date of Corporate Debtor	01 st October 2021
8.	Date of receipt of order	12 th October 2021
9.	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	M. Ananthachari Mahesh, Regn No - 653914-01/UPP/10/173/2018-2021/2673
10.	Address and e-mail of the liquidator as registered with the Board	5/5, Soverisima Essadamma Apartments, 5, Malharva Main Avenue, Velachery, Chennai 600 042. E-mail: mahaanathari@gmail.com
11.	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	5/5, Soverisima Essadamma Apartments, 5, Malharva Main Avenue, Velachery Chennai 600 042. E-mail: srip@slip@gmail.com
12.	Last date for submission of claims	10 th November 2021

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Chennai has ordered the commencement of liquidation of the SHRIRAM LAND DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED on 1st October 2021 and the liquidator is M. Ananthachari Mahesh. The stakeholders of SHRIRAM LAND DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 10th November 2021 to the liquidator at the address mentioned against item 11.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in physically post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claims shall attract penalties.
Ananthachari Mahesh
Date: 16.10.2021 (Regn No - 18/BUA/P-01/1P/173/2018-2021/2673)
Place: Chennai Liquidator of SHRIRAM LAND DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED

GANDHI SPECIAL TUBES LIMITED
Registered Office: 201-204, 2nd Floor, Plaza, 55, Hughes Road, Next to Dharam Palace, Mumbai 400007, Maharashtra, India
Tel: +91-22-2363 4179. CIN: L27104MH1985PLC036004
Email: compliance@cs@gandhispecialtubes.com. Website: www.gandhispecialtubes.com
Contact Person: Mr. Jitendra Khadye (Company Secretary & Compliance Officer)

POST-BUY-BACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF GANDHI SPECIAL TUBES LIMITED

This post-Buy-back Public Advertisement ("Post-Buy-back PA"), regarding completion of the Buy-back by Gandhi Special Tubes Limited ("the Company") of its fully paid-up Equity Shares of Rs. 5/- each ("Equity Shares") from the Shareholders / Beneficial Owners of the Company is being published pursuant to Regulation 24(A) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buy-back Regulations"). The Post-Buy-back PA shall be read in conjunction with the Public Announcement published on Thursday, August 12, 2021 ("Public Announcement") and the Letter of Offer dated Thursday, September 9, 2021 ("Letter of Offer"). Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and Letter of Offer.

- THE BUYBACK:**
 - The Company had announced a Buy-back of up to 7,66,616 (Seven Lakhs Sixty Six Thousand Six Hundred Sixteen) Equity Shares of Rs. 5/- each, amounting to 5.93% of the paid-up Equity Share capital of the Company as on March 31, 2021, on a proportionate basis, from the Eligible Shareholders / Beneficial Owners holding Equity Shares as on Tuesday, August 31, 2021 ("Record Date"), by way of a tender offer, for cash at a price of Rs. 550/- (Rupees Five Hundred Fifty only) per Equity Share for an aggregate amount of up to Rs. 42,16,38,800/- (Rupees Forty Two Crores Sixteen Lakhs Thirty Eight Thousand Eight Hundred only) ("Buy-back"). The Buy-back represented up to 24.98% of the aggregate paid-up Equity Share Capital and Free Reserves of the Company as per the Audited Financial Statements (in accordance with section 88(2)(c) of the Companies Act, 2013) for the Financial Year ended March 31, 2021.
 - The Buy-back was undertaken by way of a Tender Offer through the Stock Exchange mechanism as prescribed under the Buy-back Regulations and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circulars. The Buy-back was implemented by the Company using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular no. CIR/CFD/POLICY/DEL/1/2015 dated April 13, 2015 as amended via SEBI circular: CFD/DCR2/CIR/27018/13 dated December 9, 2016, including any amendments thereto.
 - The Buy-back Opening Date was Tuesday, September 21, 2021 and the Buy-back Closing Date was Monday, October 4, 2021.

DETAILS OF THE BUYBACK

- The actual number of Equity Shares bought back by the Company in the Buy-back was 7,66,616 Equity Shares at a price of Rs. 550/- per Equity Share.
- The actual amount offered in the Buy-back was Rs. 42,16,38,800/-.
- The Registrar to the Buy-back, being KFin Technologies Private Limited ("Registrar"), considered a total of 6,284 valid bids for 38,26,506 Equity Shares in response to the Buy-back, which is approximately 4.99 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid applications considered by the Registrar to the Buy-back are as follows:

Category of Shareholders	No. of Equity Shares reserved in the Buy-back	No. of Valid Bids	Total No. of Equity Shares actually tendered	% Response
Reserved Category for Small Shareholders	1,14,993	5,930	2,81,667	245.12
General Category for other Shareholders	6,51,823	345	35,44,839	543.97
Total	7,66,816	6,284	38,26,506	499.14

- All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buy-back Regulations and the Letter of Offer. The despatch of communication of acceptance / rejection has been completed by the Registrar to the Buyback to the Eligible Shareholders by Thursday, October 14, 2021.
- The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited ("ICCL") on Wednesday, October 13, 2021 & Thursday, October 14, 2021 and by the NSF Clearing Limited (formerly known as National Securities Clearing Corporation Limited) ("NSCL") on Wednesday, October 13, 2021. The 1/16% in respect of unaccepted Equity Shares were paid out to the respective seller members / custodians. If Eligible Shareholders' bank account details were not available of the funds transfer instruction was rejected by RBI / respective bank, due to any reason, such funds were transferred to the concerned Shareholder/Bidders' settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.
- The dematerialized Equity Shares accepted under the Buy-back were transferred to the Company's demat escrow account on Wednesday, October 13, 2021. The unaccepted demat Equity Shares were returned to respective seller members / custodians by the ICCL and NSCL on Wednesday, October 13, 2021. No Equity Shares were tendered in physical form.
- The redemption of 7,66,616 Equity Shares accepted under the Buy-back is currently under process and shall be completed on or before Wednesday, October 20, 2021.
- The Company and its respective Director, accepts full responsibility for the information contained in the Post-Buy-back PA and also accepts responsibility for the obligations of the Company in accordance with the Buy-back Regulations.

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

The capital structure of the Company, prior to the Buy-back and the capital structure of the Company post the completion of the Buy-back is as follows:

Particulars	Pre-Buyback ⁽¹⁾	Post-Buyback ⁽²⁾
Authorized Share Capital	Rs. 12,00,00,000	Rs. 12,00,00,000
Equity Shares of Rs. 5/- each	(2,40,00,000 Equity Shares of face value Rs. 5/- each)	(2,40,00,000 Equity Shares of face value Rs. 5/- each)
Issued, Subscribed and Paid-up Share Capital	Rs. 4,58,38,800 (1,29,16,616 Equity Shares of face value Rs. 5/- each)	Rs. 3,07,60,000 (1,21,52,000 Equity Shares of face value Rs. 5/- each)

- As on Record Date i.e., Tuesday, August 31, 2021
- Subject to extinguishment of 7,66,616 Equity Shares bought back

The details of the Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% (of the total Equity Shares bought back) have been accepted under the Buy-back are as follows:

Sr. No.	Name of Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post-Buyback Equity Shares ⁽²⁾
1.	Manhar G. Gandhi	1,03,511	13.50	0.85
2.	Bhupendra G. Gandhi	98,941	12.91	0.81
3.	Jayesh M. Gandhi	56,554	7.38	0.47
4.	Mano G. Gandhi	33,465	4.37	0.44
5.	Bharti M. Gandhi	40,536	5.29	0.53
6.	B M Gandhi Investment Co LLP	36,951	4.82	0.38
7.	Gandhi Finance Co LLP	33,729	4.40	0.28
8.	Gopij J. Gandhi	24,676	3.22	0.20
9.	Chandre B. Gandhi	22,895	2.99	0.19
10.	Jigna M. Gandhi	21,823	2.85	0.18
11.	Karan Manoj Gandhi	18,470	2.41	0.15
12.	Karshma Varun Kothari	16,796	2.19	0.14
13.	Mansh Jain	11,288	1.47	0.09
14.	Rajesh P. Shah	8,713	1.14	0.07
15.	Manhar G. Gandhi (Small HUF)	7,673	1.00	0.06

- Subject to extinguishment of 7,66,616 Equity Shares bought back
- The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy-back (as on the Record Date) and the shareholding pattern of the Company post the completion of the Buy-back is as follows:

Category of Shareholders	Pre-Buyback ⁽¹⁾		Post-Buyback ⁽²⁾	
	No. of Equity Shares	% of shareholding	No. of Equity Shares	% of shareholding
Promoters and persons acting in concert (collectively the "Promoter")	94,80,698	73.99	69,16,132	73.97
Foreign Investors (including Non Resident/Indians / FPI / Foreign Mutual Funds)	21,020	0.16	32,35,666	26.63
Financial Institutions / Banks and Mutual Funds (including by Banks / Institutions)	625	0.01	-	-
Others (Public, Bodies Corporate, etc.)	34,16,073	26.44	-	-
Total	1,29,16,616	100.00	1,21,52,000	100.00

- As on Record Date i.e., Tuesday, August 31, 2021
- Subject to extinguishment of 7,66,616 Equity Shares bought back

MANAGERS TO THE BUYBACK

Prime Securities Limited
1109/1110, Maker Chambers V, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India
Tel: +91-22-61842625, Fax: +91-22-42497077
Contact Person: Mr. Anand Doshi / Mr. Nishay Saraf
Email: gsb_buyback@primesec.com, Website: www.primesec.com
CIN: L67120MH1992PLC036724
SEBI Registration Number: MB/MH/MCO0000750

For further details please refer to the Company's website (www.gandhispecialtubes.com) and the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com / www.nseindia.com).

DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(a) of the Buy-back Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post-Buy-back PA or any other advertisement, circular, brochure, publicity material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of GANDHI SPECIAL TUBES LIMITED

Sd/-
Manhar G. Gandhi
Managing Director
DIN: 00041190
Place: Mumbai
Date: October 15, 2021

Sd/-
Jayesh Gandhi
Director
DIN: 00041300

Sd/-
Jitendra Khadye
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: A61403

बनावट नोटा व्यवहारात आणणाी टोरी अटकेत

शाहर/बासलागव
बनावट नोटा व्यवहारात आणणाी टोरी अटकेत
शाहर/बासलागव

मद्यधुंद तरुणाने स्वतःच्या डोक्यात गोरी झाडली

शाहर/पुणे
मद्यधुंद तरुणाने स्वतःच्या डोक्यात गोरी झाडली
शाहर/पुणे

रानडुकराच्या धडकेत मृत्यू

धडार :
रानडुकराच्या धडकेत मृत्यू
धडार :

कोविड मृतांच्या वारसांच्या मदतीसाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती

प्रतिनिधी/मुंबई
कोविड मृतांच्या वारसांच्या मदतीसाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती
प्रतिनिधी/मुंबई

GANDHI SPECIAL TUBES LIMITED
Registered Office: 201-204, 2nd Floor, Plaza, 55, Hughes Road, Next to Dharam Palace, Mumbai 400007, Maharashtra, India

POST BUY-BACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF GANDHI SPECIAL TUBES LIMITED

This Post Buy-Back Public Advertisement ("Post Buy-Back PH"), regarding completion of the Buy-back by Gandhi Special Tubes Limited ("the Company") of its fully paid-up Equity Shares of Rs. 5/- each ("Equity Shares") from the Shareholders / Beneficial Owners of the Company, is being published pursuant to Regulation 24(A) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2019, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buy-Back Regulations").

Table with 5 columns: Category of Shareholders, No. of Equity Shares reserved in the Buy-back, No. of Valid Bids, Total No. of Equity Shares validly Tendered, % Response

2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buy-back Regulations and the Letter of Offer. The despatch of communication of acceptance / rejection have been completed by the Registrar to the Buy-back by Thursday, October 14, 2021.

Table with 4 columns: Particulars, Pre-Buyback, Post-Buyback

Table with 5 columns: Sr. No., Name of Shareholder, No. of Equity Shares accepted under the Buy-back, Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back, Equity Shares accepted as a % of total post-Buyback Equity Shares

Table with 4 columns: Category of Shareholders, No. of Equity Shares, % of shareholding, Pre-Buyback, Post-Buyback

4. MANAGERS TO THE BUYBACK
Price Securities Limited
110Q/1110, Maker Chambers V, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India

ECO RECYCLING LIMITED
CIN: L74120MH1994PLC078971
422, The Summit, near WEM Metro Station, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400059

Table with 10 columns: Sr. No., Particulars, Un-Audited Quarter ended, Un-Audited Quarter ended, Un-Audited Half Year Ended, Un-Audited Half Year Ended, Audited Year ended

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th September, 2021

Table with 10 columns: Sr. No., Particulars, Un-Audited Quarter ended, Un-Audited Quarter ended, Un-Audited Half Year Ended, Un-Audited Half Year Ended, Audited Year ended

This is an extract of the detailed Quarterly and Half Yearly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

HDFC MUTUAL FUND
HDFC Asset Management Company Limited
A Joint Venture with Standard Life Investments

NOTICE
NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund") has approved the following Distribution Under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options in HDFC Arbitrage Fund, an Open-ended Scheme investing in Arbitrage Opportunities ("the Scheme") and fixed Thursday, October 21, 2021 (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

Table with 4 columns: Name of the Scheme / Plan / Option, Amount of Distribution, Face Value, Net Asset Value

The distribution will be subject to the availability of distributable surplus on the Record Date and may be lower.

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Scheme would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund and the funds are available for utilization before cut-off times in respect of the aforesaid Scheme, on the Record date).

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW Option(s), the amount due (net of applicable TDS) will be reinvested, by allotting Units at the ex-Distribution NAV per Unit (adjusted for applicable stamp duty).

जाहीर सूचना - नामाधिकार तपासणी

आम्हाला अजिजीचा मुंबई जिल्हा मंडळीत नोंदवून घ्यावी.
जाहीर सूचना - नामाधिकार तपासणी
आम्हाला अजिजीचा मुंबई जिल्हा मंडळीत नोंदवून घ्यावी.

जाहीर सूचना

जाहीर सूचना
जाहीर सूचना
जाहीर सूचना

FREE PRESS
www.hvpspress.com